



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 669) पटना, मंगलवार, 16 अगस्त 2016

सं0 21/बी.पी.एस.सी.-06/2013 सा0प्र0-11024

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

12 अगस्त 2016

विषय:-बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित आवेदन-पत्रों की स्कूटनी एवं शैक्षिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय/पारिश्रमिक की दर की स्वीकृति।

राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित आवेदन-पत्रों की स्कूटनी एवं शैक्षिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय/पारिश्रमिक की दर निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया है-

क्र.सं.

विषय/मद का विवरणी

1

आवेदन पत्रों की स्कूटनी एवं एकेडमिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के लिए

अनुमोदन हेतु प्रस्तावित दर

1. ₹ 25/- (पच्चीस रुपये) प्रति आवेदन पत्र (सामान्यतः एक दिन में अधिकतम चालीस आवेदन-पत्र) आवश्यकतानुसार अधिक आवेदन पत्र भी दिया जा सकता है।
2. आवागमन भत्ता एवं भोजन हेतु एकमुश्त ₹ 200/(दो सौ) रुपये प्रति कार्य दिवस।
3. आवेदन-पत्रों की जाँच आदि से संबंधित ब्रिफिंग/विमर्श बैठको में सम्मिलित होने हेतु ₹ 500/-(पाँच सौ) रुपये प्रति बैठक (अधिकतम एक विज्ञापन/विषय के लिए तीन बैठक)

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/बिहार लोक सेवा आयोग को दी जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 669-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>